

Uttar Pradesh Specific Current Affairs: January 2021

प्रधानमंत्री ने PMAY-G के तहत उत्तर प्रदेश में 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी की

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 6.1 लाख लाभार्थियों को लगभग 2,691 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की।
- **नोट:** प्रधानमंत्री ने 20 नवंबर 2016 को सरकार के PMAY-G कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए देश में 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराने का आह्वान किया था।
- PMAY-G के तहत देश भर में अब तक 1.26 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं।
- PMAY-G के लाभार्थियों को सहायता राशि के अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत अकुशल श्रमिक की मजदूरी के रूप में सहायता और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) से शौचालय के निर्माण के लिए 12 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती है।
- **उत्तर प्रदेश के बारे में तथ्य:**

राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल

मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ

राजधानी: लखनऊ

अवध शिल्पग्राम, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में 24 वें "हुनर हाट" का आयोजन

- अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 22 जनवरी से 04 फरवरी 2021 को 24 वें अवध शिल्पग्राम, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में "हुनर हाट" "वोकल फॉर लोकल" विषय के साथ आयोजित कर रहा है।
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने 23 जनवरी 2021 को "हुनर हाट" का उद्घाटन किया।
- **नोट:** आने वाले दिनों में, "हुनर हाट" मैसूर, जयपुर, चंडीगढ़, इंदौर, मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली, रांची, कोटा, सूरत / अहमदाबाद, कोच्चि, पुदुचेरी और अन्य स्थानों पर आयोजित किया जाएगा।

एक्सप्रेसवे पर दो हवाई पट्टियों वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया

- एक हवाई पट्टी लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर है, जबकि दूसरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (3,300 मीटर लंबी हवाई पट्टी) कुरेभार के पास है।
- एक्सप्रेसवे पर हवाई जहाजों को आपातकालीन लैंडिंग और लड़ाकू विमानों के टेक-ऑफ की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- **उत्तर प्रदेश के बारे में तथ्य:** हाल ही में, UP दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और उन्हें स्वरोजगार के नए अवसरों का पता लगाने में मदद करने के लिए 'उद्यम सारथी' ऐप लॉन्च किया गया।

गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला

- इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली 32 झांकियों में से उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है।
- उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय था – अयोध्या: उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत।
- त्रिपुरा की झांकी को दूसरे स्थान पर और उत्तराखंड को तीसरे स्थान पर रखा गया।